



NEWSLETTER

April, 2024

YASH Sewa Samiti

The poster for YASH Sewa Samiti (NGO) features a logo on the left and a registration number on the right. The main text is in Hindi, promoting remedial classes for children of domestic help and labor. It includes a QR code for donations and a list of various social welfare programs at the bottom.

यश सेवा समिति (NGO) Regd. No. Society / West / 2016 / 8902121

चैरिटेबल शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र

घर बैठे काम पाओ और कमाओ
सिलाई, पाल्तर, ज्वेलरी आदि के कोर्स सीखो
बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास
पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन

हमारे अन्य उपक्रम एवं प्रयास:

- सर्व शिक्षा अभियान
- महिला सशक्तिकरण
- समग्र स्वास्थ्य सबल भारत
- आजीविका मिशन
- मिशन संतुलित आहार
- पर्यावरण संरक्षण

DONATE

For YASH SEWA SAMITI

Dear Supporters!

Your kind support help us to run remedial classes for children of domestic help and labour class to empower them with education & skills.

To empower these children means to Empower a community.

Your support about breaking cycle of inequality and giving them tools to build better future.

Together Let's ensure every child has the chance to shine.
Sponsor education and BE A CHANGE MAKER.

.. Sarita Bhatia , President





www.yashsewasamiti.org



Impact

Academic Progress



www.yashsewasamiti.org




Impact

Congratulations



Happy children
with passing
marksheets

Education of some
children
sponsored by YSS



www.yashsewasamiti.org

Celebrations



Children got shoes , tiffins, water bottles while celebrating special occasions on our initiative Share Smiles



Yash Sewa Samiti conducted a meeting in the premises of Yash Sewa Samiti with resource persons from NCUI for EDP trainings like Soap Making, Agarbatti Making, digital literacy to empower women with skills



www.yashsewasamiti.org

GO GREEN

We are on a mission to amplify our impact by showcasing actions that protect our planet.

Recycle, Reduce, Reuse are the 3 R's that Yash Sewa Samiti uses. Sustainable Living makes a positive Impact on the environment and protect our planet. So let's GO GREEN Because every act matters!



1. REDUCE

Use reusable shopping bags designed with scraps of clothes and water bottles as planters to reduce single-use plastic waste



www.yashsewasamiti.org

We are Going Green

2. REUSE

- Repurpose old items for new uses, such as using glass jars as storage containers or turning old clothes into cleaning rags.
- Donate or sell items you no longer need instead of throwing them away.



3. RECYCLE

YSS Sort and recycle paper, plastic, glass, and cloth products.

Purchase products made from recycled materials to support the Self Help Groups



AWARENESS ABOUT ORGAN DONATION

Punjab Kesari newspaper covered news of Chakhandi Branch of Kesari Club for Senior Citizens.

Sarita Bhatia as a resource person from Yash Sewa Samiti & Dadhichi Dehdan Samiti also visited there to conduct an awareness session about Eye, Organ and Body donation for the cause of humanity. She also quoted two duplets about this.

*अगर देखना है जगत, मरने के भी बाद।
दान करो अपने नयन, लोग करेंगे याद।।
* माटी का घोड़ा मनुज, माटी की है देह।
माटी में मिलना सभी, तो व्यर्थ देह से नेह।।





Senior citizens



Get together

Different Activities during the Month



Stitching Tricks
Cushions
Aasans



Trip to Rishikesh





www.yashsewasamiti.org

CHOOSE THE CAUSE JOIN US TO MAKE THE IMPACT



यश सेवा समिति
Regd. No. Society / West / 2015 / 0002721

 **हमारे उपक्रम**
सब पढ़ें, सब बढ़ें



* आधारशिला बचपन क्लब में
बच्चे फ्री ट्यूशन पढ़ें
सब सीखें, सब कमाएं

* आधारशिला बेसिक कोर्स में
सिलाई, कढ़ाई, पाल्टर आदि का कोर्स करें
हमारी घरोंहर

* आशीर्वाद वरिष्ठ नागरिक मंच
जिन्दगी काटें नहीं जिन्दगी जीएं

**R-169, भाटिया कॉलेज, वाणी विहार
उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059
सरिता भाटिया : 9810009863**

